

## यूपीनेडा अलीगढ द्वारा संचालित मा० मुख्यमंत्रीजी की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों का विवरण

---

- 1 - सोलर स्ट्रीट लाइट - वित्तीय वर्ष 2015.16 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 29 ग्राम चयनित (मजरे सहित) थे जिनमें मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 420 नं० सोलर स्ट्रीट लाइटों का लक्ष्य निर्धारित था। जिसके सापेक्ष 29 ग्रामों में 420 नं० सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। सोलर स्ट्रीट लाइट में 75 वाट का एक सोलर पैनल 75 ए.एच की एक ट्यूबलर प्लेट बैटरी होती है जिससे 12 वाट की ब्हाइट एल०ई०डी० ट्यूब लाइट रात्रि को जलती है। वित्तीय वर्ष 2016.17 में चयनित 29 ग्रामों (मजरे सहित) में 437 नं० सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापना की कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी है।
- 2 - सोलर पावर पैक - वर्ष 2014.15 में चयनित ग्रामों में (प्रत्येक ग्राम में 10 नं०) सोलर पावर पैक की स्थापना करायी जानी है इसमें 120 वाट के सोलर पैनल 100 ए.एच की बैटरी 25 वाट का एक पंखा तथा 3.3 वाट की दो तथा 5 वाट की एक ट्यूब प्रदान की जायेगी। यह कार्यक्रम गांव के उन 10 गरीब परिवारों के यहाँ स्थापित किया जायेगा जिनके पास अपना मकान हो घर की मुखिया विधवा हो जिसकी दो लडकियां हों जो प्राइमरी अथवा जूनियर हाईस्कूल में पढते हों का चयन ग्राम प्रधान पंचायत सचिव एवं खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से कराया जाता है।
- 3 - हाई मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद हेतु 38 नं० संयंत्रों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस संयंत्र की स्थापना छाया रहित सार्वजनिक स्थलों पर रात्रि में पथ प्रकाश हेतु करायी जानी है। स्थलों का चयन जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के परामर्श पर कराया जाना है। कमेटी में मुख्य विकास अधिकारी जिला पंचायतराज अधिकारी मुख्य नगर अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी यूपीनेडा सदस्य होंगे। इस संयंत्र में 440 वाट के सोलर पैनल 100 ए.एच. की 04 नं० ट्यूबलर बैटरी तथा 18 वाट की 04 ब्हाइट एल०ई०डी० चारों कोनों पर स्थापित करायी जायेगी।

